

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 617]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2014—पौष 2, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
“निर्वाचन भवन”
58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1715.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर.	अध्यक्ष	-	-	-	श्रीमति अर्चना नीरज महाराज	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक		विवेक रेजा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो		भवानी शंकर कोष्ठी “पप्पू”	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन		श्रीमति राशि वंशकार	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार		स्वतंत्र नेमा “मर्चेन्ट”	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच		कल्पना-कैलाश साहू	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः		श्रीमति शकुन दुबे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात		“रमेश काछी”	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	पार्षद	8	आठ	अर्चना राजेश तिवारी	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
10	पार्षद	9	नौ	भगवान दास राय	भारतीय जनता पार्टी	
11	पार्षद	10	दस	“निर्मला देवेन्द्र प्रजापित”	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
12	पार्षद	11	ग्यारह	कोमल राय “गोलू”	निर्दलीय	
13	पार्षद	12	बारह	“राम कुमारी सोनी”	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
14	पार्षद	13	तेरह	राजेश माखीजा “बल्ला भैया”	भारतीय जनता पार्टी	
15	पार्षद	14	चौदह	श्रीमति लक्ष्मी समीर तिवारी	भारतीय जनता पार्टी	
16	पार्षद	15	पन्द्रह	प्रशांत बुंदेला “काजू”	भारतीय जनता पार्टी	
17	पार्षद	16	सोलह	“श्रीमति सरोज राय”	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
18	पार्षद	17	सत्रह	‘अस्सू नेमा’	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
19	पार्षद	18	अट्ठारह	सूर्यकान्तसाहू “सूरज”	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
20	पार्षद	19	उन्नीस	मेघा आनंद चौरसिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
21	पार्षद	20	बीस	रजीना बी बबलू	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
22	पार्षद	21	इक्कीस	श्रीमति सिया तिवारी “प्रभात तिवारी”	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
23	पार्षद	22	बाईस	“मूल चंद यादव” मुल्लू भैया	भारतीय जनता पार्टी	
24	पार्षद	23	तेईस	एडवोकेट श्रीमति सरिता पटैल	भारतीय जनता पार्टी	
25	पार्षद	24	चौबीस	श्रीमति नीतू उर्फ नीता पुआँरिया	भारतीय जनता पार्टी	
26	पार्षद	25	पच्चीस	भोला उर्फ भोलेशंकर ठाकुर	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
27	पार्षद	26	छब्बीस	“राजीव राणा बालाप्रसाद”	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
28	पार्षद	27	सत्ताईस	शैलेन्द्र साहू राजा	भारतीय जनता पार्टी	
29	पार्षद	28	अट्ठाईस	अनुराधा अरविंद नामदेव	भारतीय जनता पार्टी	

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1716.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, गाडरवाडा, जिला नरसिंहपुर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, गाडरवाडा जिला नरसिंहपुर.	अध्यक्ष	-	-	अनीता रविशेखर जायसवाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	पार्षद	1	एक	श्रीमती गीता लखन जायसवाल	भारतीय जनता पार्टी	
3	पार्षद	2	दो	श्रीमती दीपा अरविन्द सिंह कौरव	भारतीय जनता पार्टी	
4	पार्षद	3	तीन	श्रीमति लक्ष्मीबाई/राकेश तिवारी (गुड्डू भैया).	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
5	पार्षद	4	चार	सोमनाथ कौरव	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
6	पार्षद	5	पांच	“संजय राजोरिया (संजू)”	भारतीय जनता पार्टी	
7	पार्षद	6	छः	“श्रीमति कुसुम राजेन्द्र शर्मा”	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
8	पार्षद	7	सात	“श्रीमती सरिता गुट्टी शर्मा”	भारतीय जनता पार्टी	
9	पार्षद	8	आठ	दुर्गा प्रसाद गौड़ (बब्बू)	भारतीय जनता पार्टी	
10	पार्षद	9	नौ	मुन्नीबाई नीरस	भारतीय जनता पार्टी	
11	पार्षद	10	दस	गौतम कुर्मी (बड्डा)	भारतीय जनता पार्टी	
12	पार्षद	11	ग्यारह	“श्रीमति रजनी मनोज पटैल”	भारतीय जनता पार्टी	
13	पार्षद	12	बारह	छोटेलाल चौधरी	भारतीय जनता पार्टी	
14	पार्षद	13	तेरह	श्रीमती स्वाति अनिक जैन	भारतीय जनता पार्टी	
15	पार्षद	14	चौदह	श्रीमति भावना सोनी	भारतीय जनता पार्टी	
16	पार्षद	15	पन्द्रह	संदीप साहू “गोलू”	भारतीय जनता पार्टी	
17	पार्षद	16	सोलह	“रीतेश राय”	भारतीय जनता पार्टी	
18	पार्षद	17	सत्रह	रिंकी शरद साहू	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
19	पार्षद	18	अट्ठारह	“प्रवेश राय”	भारतीय जनता पार्टी	
20	पार्षद	19	उन्नीस	“कमल खटिक”	भारतीय जनता पार्टी	
21	पार्षद	20	बीस	“पवन कुमार चौधरी”	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
22	पार्षद	21	इक्कीस	“सुशील श्रीवास्तव”	भारतीय जनता पार्टी	
23	पार्षद	22	बाईस	“श्रीमती संध्या राजपूत”	भारतीय जनता पार्टी	
24	पार्षद	23	तेईस	“श्रीमती जानकी रेवाराम कोरी”	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
25	पार्षद	24	चौबीस	अजय सोनी “नीकू”	इंडियन नेशनल कांग्रेस	

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1717.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद, करेली, जिला नरसिंहपुर के माह दिसम्बर 2014

में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक (1)	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में शब्दों में (4) (5)	निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)	दल से सम्बद्धता (7)	
1	नगरपालिका परिषद्, करेली, जिला नरसिंहपुर.	अध्यक्ष	-	-	राजेन्द्र रघुवंशी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	श्रीमति कविता विजय वर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	दिव्या होतवानी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	संदीप यादव	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	लक्ष्मी विजेन्द्र डेम	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	संजय सिंह सरोहा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	श्रीमति रणजीत महेन्द्र सिंह छावड़ा	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	मलका कसीर खान	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	दिनेश अग्रवाल	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	श्रीमति प्रीति मिश्रा (बबली)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	शबाना बहना	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	कृष्णकान्त उर्फ प्रदीप शर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	सगीर बाबा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	गोविन्द जाटव उर्फ हक्कू भैया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	अशोक उर्फ चौधरी अशोक रघुवंशी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	हेमन्त गौंड (भोलू)	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(गिरीश शर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1718.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक (1)	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में शब्दों में (4) (5)	निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)	दल से सम्बद्धता (7)	
1	नगरपालिका परिषद्, गोटेगांव जिला नरसिंहपुर.	अध्यक्ष	-	-	मालती मुकेश बिलवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2		पार्षद	1	एक	सुमित उपाध्याय (सुमित महाराज)	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	“राजेश कुमार चौकसे”	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	श्रीमति रजनी राजेन्द्र राय	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	गीता शरण (गित्तू विश्वकर्मा)	निर्दलीय
6		पार्षद	5	पांच	“रामजी ठाकुर”	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	दीनू सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	माया बिहारी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	डॉ. जितेन्द्र चौबे	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	श्रीमति रोशनी दयाशंकर चौरसिया	निर्दलीय
11		पार्षद	10	दस	“मनको वाई महोविया”	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमति अंजनी दीपक सोनी	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	शमशाद शरीफ	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	श्रीमति अनीता अशोक पाठक	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	एडवोकेट अशोक पटेल	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	सतीश अग्रवाल	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(गिरीश शर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1719.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, तेंदूखेडा, जिला नरसिंहपुर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता	
(1)	(2)	(3)	अंकों में शब्दों में	(6)	(7)	
1	नगर परिषद्, तेंदूखेडा जिला नरसिंहपुर.	अध्यक्ष	-	-	माया/कमलेश पुजारी	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	राजेश राय उर्फ बबलू	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	सुरेश साहू	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	साक्षी/संजय नायक	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	हीरा बाई	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	ठाकुर दास जाटव	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	गुलाब पाली	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	पार्षद	7	सात	निधि/प्रतीक स्वदेशी	भारतीय जनता पार्टी	
9	पार्षद	8	आठ	राजू पाली	भारतीय जनता पार्टी	
10	पार्षद	9	नौ	जुबेदा बी/नजीर शेख	भारतीय जनता पार्टी	
11	पार्षद	10	दस	दीपक पटैल	भारतीय जनता पार्टी	
12	पार्षद	11	ग्यारह	छाया/पूरन कोरी	भारतीय जनता पार्टी	
13	पार्षद	12	बारह	पूनम रामकिशन	भारतीय जनता पार्टी	
14	पार्षद	13	तेरह	डालचन्द्र पटैल	भारतीय जनता पार्टी	
15	पार्षद	14	चौदह	बाबूलाल ठाकुर	भारतीय जनता पार्टी	
16	पार्षद	15	पन्द्रह	संगीता तिवारी	भारतीय जनता पार्टी	

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1720.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, सालीचौका जिला नरसिंहपुर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता	
(1)	(2)	(3)	अंकों में शब्दों में	(6)	(7)	
1	नगर परिषद्, सालीचौका जिला नरसिंहपुर.	अध्यक्ष	-	-	संगीता मेहरा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	श्रीमति चोखी बाई	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	मीनादेवी/ओंकार राय	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	निशा अनुपम राय	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	अंजू नरेश राय	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	बैनी सिंह सेजवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	रामनारायण बड़कुर	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	अमरराज पटैल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	मनीष कुमार चौकसे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	हीरा लाल अहिरवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	इन्द्रसिंह पटैल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती सविता पटैल	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	दुर्गा प्रसाद पटैल	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	नन्ही बाई लोधी	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	शांति बाई	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	ब्रजमोहन शर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1721.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, चिचली, जिला नरसिंहपुर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	अंकों में	शब्दों में	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, चिचली जिला नरसिंहपुर.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमति सुधा भोगचंद ताम्रकार	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	अशोक कुशवाहा	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	श्रीमती ममता ताम्रकार	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	श्रीमती बबिता चैनलाल ताम्रकार	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	श्रीमति अंजना देवी ताम्रकार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	राम भरोसे	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	अर्जुन सिंह ठाकुर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	अभिषेक कुमार सोनी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	शेख शहाबुद्दीन	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	श्रीमती हदीशा बी (रौनकबाबा)	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	सिताबी वंशकार	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	हेमलता मेहरा/राकेश मेहरा	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	श्रीमती गायत्री दीक्षित	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती कमलाबाई विश्वकर्मा	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	रामनरेश कौरव	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	जैनेन्द्र कौरव (मुन्ना भैया)	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1722.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, साईंखेडा, जिला नरसिंहपुर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	अंकों में	शब्दों में	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, साईंखेडा जिला नरसिंहपुर.	अध्यक्ष	-	-	द्वारका चौकसे	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2		पार्षद	1	एक	राधाबाई पटैल	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	मनीष अग्रवाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	निशांत अग्रवाल (नीशू)	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	श्रीमती संध्या भदोरिया	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	अशोक कुशवाहा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	श्रीमति शोभा अग्रवाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	उर्मिला/योगेन्द्र राजपूत	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	श्रीमति मालती कुशवाहा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	नीतू कुशवाहा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	सोबरन हरिजन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	सौरभ सोनी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	संजीव अग्रवाल (संजू)	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	संजय बसेडिया (संजू)	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	श्रीमति गौरी बाई	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	हेमंत कुमार पटैल	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.